



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 25, 1982/कार्तिक 3, 1904  
No. 188] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 25, 1982/KARTIKA 3, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

## वाणिज्य मंत्रालय

### आयात व्यापार नियमन

सार्वजनिक सूचना सं० : 54-आईटीसी (पी एन)/82

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 1982

विषय : 1982-83 के लिए आयात एवं निर्यात नीति

नि० सं० आई पी सी/4/3(261)/87/80-811.---वाणिज्य मंत्रालय  
की सार्वजनिक सूचना सं० 16-आईटीसी (पी एन)/82, दिनांक 5  
अप्रैल, 1982 के अंतर्गत प्रकाशित तथा संशोधित अप्रैल, 1982-मार्च,  
1983 के लिए आयात एवं निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता  
है।

2 1982-83 के लिए आयात एवं निर्यात नीति में निम्नलिखित  
संशोधन उचित स्थानों पर किए जाएंगे ---

| क्रम<br>सं० | 1982-83 के लिए आयात-<br>निर्यात नीति (जिल्द-1) की पृष्ठ सं०       | संदर्भ  | संशोधन |
|-------------|---|---|--------|
| 1           | 2   | 3   | 4      |
| 96          | प्रतिष्ठ सं० 33<br>"कीटनाशी, महा-<br>मारी नाशी और<br>घासपात नाशी" | वर्तमान प्रतिष्ठ सं० 33(21)<br>के बाद निम्नलिखित<br>उप-प्रतिष्ठियां शामिल की<br>जाएंगी :--<br>"(22) कृत्रिम पाइरेथ्रोइड्स ---<br>(1) डेकामेथ्रीन<br>(2) परमेथ्रीन |        |

| 1  | 2   | 3  | 4   |
|----|-----|--|---|
|    |     |  | (3) साइपरमेथ्रीन<br>(4) फिनवालेरेट<br>(23) घासपात नाशी:<br>(1) आईसीप्रोट्यूरोन<br>(2) मेथाक्जेंथिथीजुरोन<br>(3) सेटाक्मुरोन |
| 2. | 104 | प्रतिष्ठ सं० 399 वर्तमान कोष्ठक में "पाइरे-<br>"कृत्रिम पाइरोथ्रोइड्स थ्रोइड्स शब्द के बाद निम्न-<br>(इसमें कृत्रिम लिखित को जोड़ा जाएगा:--<br>पाइरेथ्रोइड्स भी "डोकामेथ्रीन, परमेथ्रीन, साइ-<br>शामिल हैं) परमेथ्रीन फिनवालेरेट को<br>छोड़कर" |   |

3 वे नियम नवन और व्यापार सदन जो अपने अतिरिक्त लाइसेंसों  
के भूदे उपायुक्त क्रम सं० 1 और 2 की मदों का आयात करने के लिए  
पात्र हैं, खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत क्रम सं० 2 की मदों का आयात  
करने के लिए पात्र वास्तविक उपयोक्ता (प्रयोगिक) और आयात एवं  
निर्यात नीति (जिल्द-1) की कठिका 198 के अंतर्गत इन मदों का आयात  
करने के लिए पात्र आरईपी लाइसेंस धारक इस सार्वजनिक सूचना की  
तारीख से पहले ही खोजे गए और स्थापित किए गए अपरिवर्तनीय  
साक्ष्यपत्रों की सीमा तक को छोड़कर उपयुक्त मदों का आयात करने के  
लिए इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार पात्र नहीं होंगे।

4. सन् 1982-83 के लिए आयात-निर्यात नीति (जिल्द-1) के पृष्ठ 159 पर के परिशिष्ट 17 में "सामान्य शर्तों" की कंडिका-5 के आधार पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय लाइसेंस हन मदों के आयात के लिए वैध नहीं होंगे, लेकिन यदि वे मद परिशिष्ट 17 में संगत निर्यात उत्पाद के मामले के कालम-4 या 5 में आयात के लिए विशेष रूप से उल्लिखित हों अथवा अधिनियम/अप्रदान लाइसेंसों के अन्तर्गत वे मद विशेष से खी गई हों तो वे हमें शामिल नहीं हैं।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य निदेशक,  
आयात-निर्यात

**MINISTRY OF COMMERCE**  
**IMPORT TRADE CONTROL**  
**PUBLIC NOTICE NO. 54-ITC-(PN)/82**

New Delhi the 25th October, 1982

Subject :—Import & Export Policy for 1982-83.

F. No. IPC/4/3(261)/87-/80-81 :—Attention is invited to the Import & Export Policy for April, 1982—March, 1983, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 16-ITC (PN)/82 dated the 5th April, 1982, as amended.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import & Export Policy for 1982-83:—

| S. No. | Page Number of Import & Export Policy (Volume-I) for 1982-83 | Reference   | Amendment   |
|--------|--|---|---|
| 1      | 2  | 3   | 4   |
| 1.     | 96   | Entry No. 33, "Insecticides, Pesticides and Weedicides" | After the existing sub-entries No. 33(21), the following new sub-entries shall be inserted :—<br><br>"(22) Synthetic Pyrethroids:—<br>(i) Decamethrin |

| 1  | 2   | 3   | 4  |
|----|-----|---|--|
|    |     |   | (ii) Permethrin<br>(iii) Cypermethrin<br>(iv) Fenvalrate<br><br>(23) Weedicides:—<br>(i) Isoproturon<br>(ii) Methabenzthiazuron.<br>(iii) Metoxuron".    |
| 2. | 104 | Entry No. 399 "Synthetic Pyrethrum (including synthetic pyrethroids)" | After the existing word "Pyrethroids", in brackets, the following shall be added:—<br><br>"Other than decamethrin, permethrin cypermethrin, fenvalrate". |

3. Export Houses and Trading Houses eligible to import the items at S. Nos. 1 and 2 above against their Additional licences Actual Users (Industrial) eligible to import items at S. No. 2 under O.G.L and REP licence-holders eligible to import these items under para 138 of Import & Export Policy (Volume-I), shall not be eligible in pursuance of this Public Notice, to import the said items except to the extent of irrevocable letters of credit already opened and established before the date of this public Notice.

4. It may also be clarified that by virtue of para 5 of the "General Conditions" in Appendix-17 at page 159 of Import & Export Policy (Volume-I) of 1982-83, REP licences shall not be valid for import of these items except if these items are specifically described for import in Column 4 or Column 5 against the relevant export product in Appendix 17 or against an Advance/Imprest licence specifically containing these items.

MANI NARAYANSWAMI,  
Chief Controller of Imports & Exports.